

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लखत प्रश्न सं. 2450
सोमवार, 01 अगस्त, 2022/10 श्रावण, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को सुवधाएं

2450. श्री अर्जुन लाल मीणा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) सरकार द्वारा उदयपुर संसदीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदान की जाने वाली सुवधाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा पछले तीन वर्षों के दौरान अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदान की गई सुवधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पर्यटन मंत्री (श्री जी. कशन रेड्डी)

(क) और (ख): पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को प्रदान की गई सुवधाएं निम्नानुसार हैं:

- पर्यटकों को पर्यटक अभिरूचि स्थल, आवास, परिवहन, गाइड आदि से संबंधित जानकारी देना और इस संबंध में सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करना।
- आरटीडीसी इकाइयों, टूर पैकेज, स्थानीय दर्शनीय स्थलों की यात्रा और विशेष रूप से पैलेस ऑन व्हील्स और अन्य सामान्य अवसंरचना के बारे में वस्तुतः सूचना प्रदान करना।
- जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा क्वारंटाइन के लिए होटलों को चिह्नित किया गया। कोविड महामारी के दौरान उदयपुर में फंसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को उनके देश वापस भेजने के लिए संबंधित विभाग और सरकारी एजेंसियों की मदद की सुवधा प्रदान की गई।

- को वड-19 लॉकडाउन के दौरान उदयपुर में फंसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को टिकट बुकंग, टैक्सी पास, फ्लाइट बुकंग आदि में सहायता प्रदान करने संबंधी सभी आवश्यक सुवधाएं सुनिश्चित की गईं।

पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

- पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की जरूरतों को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति सृजन करने में सक्षम, आवश्यक अवसंरचना सहयोग सहित, प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा की एक प्रणाली की स्थापना करना पर्यटन मंत्रालय का प्रयास रहा है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा उदयपुर में आईएचएम की एक (1) ऐसी शाखा भी प्रायोजित की गई है।
- पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान राज्य में 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें प्रताप गौरव केंद्र, उदयपुर में विकास कार्य शामिल हैं।
